



दिनांक:- 28.11.2020

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



**“मिशन शक्ति” महाभियान के तहत मार्गकथा मार्ग/कोचिंग संस्थानों की बालिकाओं/छात्राओं को किया गया जागरूक**



बालिकाओ/महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान **“मिशन शक्ति”** के तहत जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों से अवगत कराया गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों व आत्म-सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा उन्हें **कोविड-19** के संक्रमण से बचाव के तरीके भी बताये गये।



आज दिनांक 28.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देश में चलाये जा रहे **“मिशन शक्ति”** महाभियान के तहत महिला थाना प्रभारी उ०नि० सुषमा चौधरी मय एण्टी रोमियो टीम के साथ नगर के **रामकथा मार्ग/कोचिंग स्थानों** में जाकर



दिनांक:- 28.11.2020

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” महाभियान के तहत मिशन शक्ति टीम, गुलाबी गैंग लीडर के साथ नगर की बालिकाओ/महिलाओं को किया गया जागरूक



आज दिनांक 28.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत आज नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम एवं गुलाबी गैंग कमाण्डर श्रीमती

फरीदा बेगम की संयुक्त टीम द्वारा महोबा शहर के कस्बा थाई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें शहर की बालिकाओं/महिलाओं के साथ गुलाबी गैंग की सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रही । निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह द्वारा अपने सम्बोधन में महिलाओं एवं बालिकाओं को अपने अधिकारों को जानने एवं महिला सम्बन्धी शिकायतों को तत्काल पुलिस को बताने हेतु उन्हे महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 की जानकारी दी गई एवं उन्हे आत्म-निर्भर, आत्म-सम्मान के प्रति भी जागरूक किया गया । कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं/बालिकाओं को थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क की भी जानकारी दी गई । उन्हे बताया गया कि कभी भी जनपद के किसी भी थाने पर जाकर अपनी शिकायत इस महिला हेल्प डेक्स पर की जा सकती है ।



दिनांक:- 28.11.2020

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान की गुलाबी गैंग कमाण्डर श्रीमती फरीदा बेगम द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई तथा इस कार्य के लिए अपना अहम योगदान देने के लिए निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह को शाल/प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया ।



दिनांक:- 28.11.2020

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च करके की गई अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक

समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।



आज दिनांक 28.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/बाजार/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के





दिनांक:- 28.11.2020

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा कोविड-19 के प्रति राहगीरों को किया गया जागरूक एवं “यातायात माह” के तहत तहत किये गये 83ई-चालान



आज दिनांक 28.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा “यातायात माह” यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन पर समस्त थानों द्वारा कोविड-19 के तहत 13 व्यक्तियों से

1800/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 83ई-चालान भी किया गया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह कि अगुवाई में यातायात उ0नि0 श्री अरविन्द मिश्रा एवं प्रभारी निरीक्षक खन्ना के साथ मय पुलिस बल खन्ना टोलप्लाजा में बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियों को चेक किया गया।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

